

अमर उजाला

Sitapur News: 10 क्विंटल चाय की नकली पत्ती जब्त



लहरपुर(सीतापुर)। मोटे मुनाफे के लिए धंधेबाज लोगों की सेहत से जमकर खिलवाड़ कर रहे हैं। ताजा उदाहरण लहरपुर में बुधवार को छापे के दौरान देखने को मिला जब एक मकान से नकली चाय की पत्ती बनाने का सामान पकड़ा गया। यहां रंग मिलाकर चाय की पत्ती बनाई जा रही थी। साथ ही अन्य कई केमिकल भी मिले।

इस पर टीम ने 10 क्विंटल चाय की पत्ती व 52 किलो रंग को जब्त कर दिया। टीम को देखकर एक मिलावटखोर मौके से भाग निकला। इससे इलाके में हड़कंप मच गया। कई व्यापारी भी अपनी दुकानें बंद करके खिसक लिए।

खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की टीम को सूचना मिली थी कि लहरपुर में चाय की पत्ती में मिलावटी रंग मिलाकर बेचा जा रहा है। इस पर मोहल्ला कटरा में सहायक आयुक्त अभय कुमार सिंह, एफएसओ राजेंद्र प्रसाद पांडे, आलोक गुप्ता व डॉ. शोभनाथ की संयुक्त टीम ने छापा मारा।

टीम को देखते ही एक मिलावटखोर मौके से भाग निकला। टीम ने मौके पर 10 क्विंटल चाय पत्ती व 52 किलो चाय में मिलाने वाला रंग बरामद किया। इस रंग को मिलाकर चाय बनाई जा रही है। टीम ने चाय व रंग का नमूना जांच के लिए प्रयोगशाला भेज दिया। अभय कुमार ने बताया मौके पर मौजूद कफील अहमद ने बताया कि रंग को मिलाकर चाय पत्ती बनाई जा रही थी। इसे गार्डन फ्रेश, नेशनल व स्पेशल नेशनल नाम से बाजार में बेचा जा रहा था।

मार्केट से कम था रेट

आमतौर पर विभिन्न ब्रांडों की चाय की पत्ती 250 ग्राम में 60 से 80 रुपये की पैकिंग में मिल जाती है। लेकिन इस ब्रांड की चाय पत्ती 50 रुपये में मिल जाती थी। साथ ही चाय का रंग भी गाढ़ा होता था जिससे ये वजनी हो जाती थी।

लखीमपुर व बहराइच तक था नेटवर्क

लहरपुर के जिस घर में नकली चाय बनाने का कारोबार हो रहा था वहां के लोगों ने बताया यहां पर बड़े पैमाने पर कई साल से काम चल रहा था। आस पड़ोस के होटल, ढाबों व दुकानों पर इसकी सप्लाई की जाती थी। साथ ही आसपड़ोस के इलाकों में भी भेजा जाता था। लखीमपुर व बहराइच जनपद तक नेटवर्क काम करता था।

बगैर लाइसेंस कर रहे थे धंधा

व्यापारी के पास चाय की पत्ती बनाने का कोई लाइसेंस नहीं था। अवैध तरीके से एक घर में कारोबार किया जा रहा था।

नमूनों को जांच के लिए प्रयोगशाला भेज दिया गया है। जांच रिपोर्ट आने के बाद सख्त कार्रवाई की जाएगी।

अभय कुमार सिंह, सहायक खाद्य आयुक्त

Source: <https://www.amarujala.com/uttar-pradesh/sitapur/10-quintal-fake-tea-leaves-seized-sitapur-news-lko661877050>